



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

No. 262]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं
होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2010

का.आ. 304(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975, के नियम 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्य की बाबत, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	रिटर्निंग अधिकारी का नाम, पदनाम और पता
1.	केरल	डॉ. सी. के. पद्मकरण, रजिस्ट्रार, ट्रावनकोर कोचीन मेडिकल काउंसिल, रेड क्रॉस, तिरुवनंतपुरम-35

[फा. सं. ए. 11019/75/2009/आयुर्वेद डेस्क/सीसीआईएम-निर्वाचन]

बी. आनन्द, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,
Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2010

S.O. 304(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of rule 2 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (3) of the Table annexed hereto to be the Returning Officer for the purpose of the said rules in respect of the State mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the State	Name, designation and address of the Returning Officer
1.	Kerala	Dr. C. K. Padmakaran, Registrar, Travancore Cochin Medical Councils, Red Cross, Thiruvananthapuram-35.

[F. No. A-11019/75/2009/Ayurveda Desk/CCIM-Election]

B. ANAND, Jt. Secy.